

प्रबंधक लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा(पूर्व), मुम्बई - 110051	प्रबंधक लिस्टिंग विभाग बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाय टावर्स दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-400001
चिह्न एवं सीरीज एमएमटीसी/ईक्यू	कंपनी स्ट्रिप कोड : 513377

विषय : एमएमटीसी लिमिटेड बोर्ड में 2 अंशकालीन नॉन-आफिसिएल निदेशकों की नियुक्ति

महोदय/महोदया,

सेबी (लिस्टिंग एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या: 14/13/97-एफटी(एसटी) दिनांक 27 जनवरी 2017 द्वारा डॉ. जयंत दासगुप्ता तथा श्री राजेंद्रसिंह रतनसिंह जडेजा की एमएमटीसी लिमिटेड के बोर्ड में 3 वर्ष की अवधि के लिए अंशकालीन नॉन-आफिसिएल निदेशकों के रूप में की गई नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

1. डॉ. जयंत दास गुप्ता जिनकी आयु 62 वर्ष है अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री तथा फिजिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग में मास्टर डिग्री तथा विधि में बैचलर डिग्री होल्डर हैं। वे बॉर काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्य हैं। वर्तमान में वे कानूनी सलाहकार हैं तथा व्यापार संबंधी मामलों के निपटान, डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तथा विदेश व्यापार पॉलिसी संबंधी मुद्दों तथा पर्यावरण, फूड एंड बायोडायवर्सिटी कानून पर परामर्श देते हैं। इससे पूर्व डॉ. जयंत ने डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत, सचिव (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद), मुख्य सलाहकार (बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड), संयुक्त सचिव एवं सीवीओ (वाणिज्य विभाग) तथा निदेशक (निर्यात), कपड़ा मंत्रालय के रूप में कार्य किया है।
2. श्री राजेंद्रसिंह रतनसिंह जडेजा की आयु 65 वर्ष है जो कानून तथा वाणिज्य में बैचलर डिग्री होल्डर हैं और वर्तमान में कानून की प्रैक्टिस करते हैं।

आपसे अनुरोध है उपरोक्त को नोट कर लें।

भवदीय
कृते एमएमटीसी लिमिटेड
हस्ता.

(जी. आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स मुम्बई - 110051 चिह्न एवं सीरीज एमएमटीसी/ईक्यू फैक्स सं.022-26598237/8238/8347/8348	कारपोरेट सर्विस विभाग बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाँय टावर्स दलाल स्ट्रीट मुम्बई-400001 कंपनी स्क्रिप कोड : 513377 फैक्स सं.022-22723121/22722037/22722039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विषय : एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में परिवर्तन ।

महोदय,

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 03.11.2016 के आदेश के अनुसरण में श्री तपस कुमार सेनगुप्ता ने दिनांक 2 जनवरी 2017 को एमएमटीसी लि. में निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण कर लिया है । उन्होंने निदेशक (कार्मिक) का पदभार श्री राजीव जयदेव के स्थान पर ग्रहण किया जो दिनांक 30.12.2016 (31.1.2016 को पूर्ण अवकाश होने के कारण) को सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

श्री टी के सेनगुप्ता की आयु 57 वर्ष है। इन्होंने एचपी यूनिवर्सिटी से मास्टर आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है तथा इग्नू नई दिल्ली से मार्किटिंग में एमबीए किया है । इनको एमएमटीसी तथा एमटीपीएल सिंगापुर में मार्किटिंग एचआर तथा प्रशासनिक कार्यों में 34 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने उर्वरक बाजार तथा व्यापार संभावनाओं विषय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय फोरम में तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं । निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सेनगुप्ता एमएमटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी थे ।

उपरोक्त सूचना सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विनियम 2015 के अनुसरण में दी गई है ।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते एमएमटीसी लिमिटेड
ह/-

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स मुम्बई - 110051 चिह्न एवं सीरीज एमएमटीसी/ईक्यू	प्रबंधक लिस्टिंग विभाग बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाय टावर्स दलाल स्ट्रीट मुम्बई-400 001
चिह्न एवं सीरीज एमएमटीसी/ईक्यू	कंपनी स्ट्रिप कोड : 513377

विषय:- एमएमटीसी के बोर्ड में अंशकालीन नॉन आफिशियल निदेशक की नियुक्ति

महोदय/महोदया,

सेबी(लिस्टिंग आब्लिगेशन एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में यह सूचित किया जाता है कि एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने आज आयोजित अपनी बैठक में श्री रजनीश गोयंका की एमएमटीसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालीन नॉन आफिसएल निदेशक के रूप में की गई नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। श्री गोयंका की नियुक्ति वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश की तारीख अर्थात दिनांक 27 जनवरी 2017 से अगले 3 वर्षों के लिए की गई है।

श्री रजनीश गोयंका की आयु 64 वर्ष है तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता बी.काम (आनर्स) तथा एलएलबी है तथा ये वर्ष 1980 से आयात व निर्यात से जुड़े हुए हैं। ये एमएसएमई डेवलेपमेंट फोरम के संस्थापक चेयरमैन हैं। एफआईसीसीआई की सीएमएसएमई के मैनेजिंग कमेटी मेंबर तथा पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री नार्थ अमेरिका कमेटी के चेयरमैन हैं। श्री गोयंका टीओबीयू ग्रुप आफ कंपनीज के भी चेयरमैन हैं।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को नोटिस में लें।

धन्यवाद।

भवदीय,

हस्ता.

(जी आनन्दनारायण)

कंपनी सचिव